

COM 315

B.Com. VI<sup>th</sup> SEMESTER EXAMINATION, 2024-25

COMMERCE

(Auditing II)

(CBCS Mode)



AFFIX PRESCRIBED  
RUBBER STAMP

Paper ID

(To be filled in the  
OMR Sheet)

Date (तिथि) : \_\_\_\_\_

5472

अनुक्रमांक (अंकों में) :

Roll No. (In Figures) :

अनुक्रमांक (शब्दों में) :

Roll No. (In Words) :

Time : 1:30 Hrs.

समय : 1:30 घण्टे

Max. Marks : 75

अधिकतम अंक : 75

नोट : पुस्तिका में 50 प्रश्न दिये गये हैं, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा।

**Important Instructions :**

1. The candidate will write his/her Roll Number only at the places provided for, i.e. on the cover page and on the OMR answer sheet at the end and nowhere else.
2. Immediately on receipt of the question booklet, the candidate should check up the booklet and ensure that it contains all the pages and that no question is missing. If the candidate finds any discrepancy in the question booklet, he/she should report the invigilator within 10 minutes of the issue of this booklet and a fresh question booklet without any discrepancy be obtained.

**महत्वपूर्ण निर्देश :**

1. अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थानों पर लिखेंगे जो इसके लिए दिये गये हैं, अर्थात् प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा साथ दिये गये ओ०एम०आर० उत्तर पत्र पर, तथा अन्यत्र कहीं नहीं लिखेंगे।
2. प्रश्न पुस्तिका मिलते ही अभ्यर्थी को जाँच करके सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं और कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। यदि कोई विसंगति है तो प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर ही कक्ष परिप्रेक्षक को सूचित करना चाहिए और बिना त्रुटि की दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लेना चाहिए।

1. Who can be appointed as internal auditor as per the companies Act, 2013 ?

- (A) A Chartered Accountant
- (B) A Cost Accountant
- (C) Such other professional
- (D) All of the above

2. Which section of companies Act deals with internal audit ?

- (A) Section 138
- (B) Section 148
- (C) Section 139
- (D) Section 192

3. One of the major components of government audit is /are :

- (A) Government revenue
- (B) Union budget and control
- (C) Government expenditure
- (D) Taxation and Fiscal policies

4. Internal audit can be performed by :

- (A) Employee of the organization
- (B) External Agencies
- (C) Management itself
- (D) Both (A) and (B)

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है ?

- (A) एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को
- (B) एक लागत लेखाकार
- (C) ऐसे अन्य पेशेवर
- (D) उपरोक्त सभी

2. कम्पनी अधिनियम की कौन सी धारा आन्तरिक लेखा परीक्षा से सम्बन्धित है ?

- (A) धारा 138
- (B) धारा 148
- (C) धारा 139
- (D) धारा 192

3. सरकारी लेखा परीक्षा के प्रमुख घटकों में से एक है/हैं :

- (A) सरकारी राजस्व
- (B) संघीय बजट और नियंत्रण
- (C) सरकारी व्यय
- (D) कराधान और राजकोषीय नीतियाँ

4. आंतरिक अंकेक्षण किया जा सकता है :

- (A) संगठन के कर्मचारी द्वारा
- (B) बाहरी एजेंसियों द्वारा
- (C) स्वयं प्रबन्धन द्वारा
- (D) (A) और (B) दोनों

5. Which of the following is a key risk in bank audit ?
- (A) Credit Risk  
(B) Market Risk  
(C) Operational Risk  
(D) All of the above
6. Which of the following audit procedures would an auditor use to test the bank's internal control ?
- (A) Substantive testing  
(B) Compliance testing  
(C) Transaction testing  
(D) Analytical procedures
7. Which of the following is a type of bank audit ?
- (A) External Audit  
(B) Internal Audit  
(C) Compliance Audit  
(D) All of the above
8. Not to detect errors and fraud by a company auditor is :
- (A) Civil Liabilities  
(B) Criminal Liabilities  
(C) Other Liabilities  
(D) None of these
5. निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लेखा परीक्षा में एक प्रमुख जोखिम है ?
- (A) क्रेडिट जोखिम  
(B) बाजार जोखिम  
(C) परिचालन जोखिम  
(D) उपरोक्त सभी
6. निम्नलिखित में से कौन सी लेखा परीक्षा प्रक्रिया बैंक के आन्तरिक नियंत्रण का परीक्षण करने के लिए लेखा परीक्षक का उपयोग करेगी ?
- (A) मूल परीक्षण  
(B) अनुपालन परीक्षण  
(C) लेनदेन परीक्षण  
(D) विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ
7. निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लेखा परीक्षा का प्रकार है ?
- (A) वाह्य लेखा परीक्षा  
(B) आन्तरिक लेखा परीक्षा  
(C) अनुपालन लेखा परीक्षा  
(D) उपरोक्त सभी
8. कम्पनी के लेखा परीक्षक द्वारा त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता न लगाना है :
- (A) नागरिक दायित्व  
(B) आपराधिक दायित्व  
(C) अन्य दायित्व  
(D) इनमें से कोई नहीं

9. Not to give correct information to the shareholders regarding balance sheet is :
- (A) Civil Liabilities  
(B) Criminal Liabilities  
(C) Other Liabilities  
(D) None of these
10. Destruction of vouchers by a company auditor is :
- (A) Civil Liabilities  
(B) Criminal Liabilities  
(C) Other Liabilities  
(D) None of these
11. To present doubtful report knowingly by a company auditor is :
- (A) Criminal Liabilities  
(B) Civil Liabilities  
(C) Other Liabilities  
(D) None of these
12. Liabilities of an honorary auditor is :
- (A) Limited  
(B) Unlimited  
(C) As the liabilities of a general auditor  
(D) No liability
9. आर्थिक चिट्ठे के बारे में अंश धारको को सही जानकारी नहीं देना है :
- (A) नागरिक दायित्व  
(B) आपराधिक दायित्व  
(C) अन्य दायित्व  
(D) इनमें से कोई नहीं
10. किसी कम्पनी लेखा परीक्षक द्वारा वाउचर नष्ट करने पर निम्नलिखित का उल्लंघन होता है :
- (A) नागरिक दायित्व  
(B) आपराधिक दायित्व  
(C) अन्य दायित्व  
(D) इनमें से कोई नहीं
11. कम्पनी के लेखा परीक्षक द्वारा जानबूझकर संदिग्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करना है :
- (A) आपराधिक दायित्व  
(B) नागरिक दायित्व  
(C) अन्य दायित्व  
(D) इनमें से कोई नहीं
12. मानद लेखा परीक्षक के दायित्व है :
- (A) सीमित  
(B) असीमित  
(C) सामान्य लेखा परीक्षक के दायित्वों के समान  
(D) कोई दायित्व नहीं

13. The liabilities for assistants negligence is :
- (A) Auditor's Liability  
(B) Assistant's Liability  
(C) Employer's Liability  
(D) None of these
14. Before commencing the audit work, a company auditor should be :
- (A) Examine the appointment  
(B) Study the nature of the Institution  
(C) Examine the statutory records  
(D) All of the above
15. Subsequent auditor in case of Government company shall be appointed within \_\_\_\_\_ from the commencement of the financial year .
- (A) 30 Days  
(B) 90 Days  
(C) 120 Days  
(D) 180 Days
13. सहायकों की लापरवाही के लिए दायित्व है :
- (A) लेखा परीक्षक के दायित्व  
(B) सहायक के दायित्व  
(C) न्योक्ता के दायित्व  
(D) इनमें से कोई नहीं
14. अंकेक्षण कार्य शुरू करने से पहले एक कम्पनी लेखा परीक्षक को चाहिए कि :
- (A) नियुक्ति की जाँच करें  
(B) संस्था की प्रकृति का अध्ययन करें  
(C) वैधानिक रिकॉर्डों की जाँच करें  
(D) उपरोक्त सभी
15. सरकारी कम्पनी के मामले में अनुवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से \_\_\_\_\_ के भीतर की जाएगी।
- (A) 30 दिन  
(B) 90 दिन  
(C) 120 दिन  
(D) 180 दिन

16. The remuneration of first auditor appointed by members of the company shall be fixed by :

- (A) Company
- (B) Board of directors
- (C) Central Government
- (D) CAG

17. Internal auditor is appointed by :

- (A) The management
- (B) The share holders
- (C) The government
- (D) Statutory body

18. First auditor of the company is appointed by the :

- (A) Share holders
- (B) Central government
- (C) Company law board
- (D) Board of directors

19. Remuneration of a company auditor is fixed by the :

- (A) Shareholders
- (B) Board of Directors
- (C) Central Government
- (D) Appointing Authority

16. कम्पनी के सदस्यों द्वारा नियुक्त प्रथम लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक किसके द्वारा किया जाएगा :

- (A) कम्पनी
- (B) निदेशक मण्डल
- (C) केन्द्र सरकार
- (D) सी०ए०जी०

17. आन्तरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है :

- (A) प्रबन्धन द्वारा
- (B) अंशधारियों द्वारा
- (C) सरकार द्वारा
- (D) वैधानिक निकाए द्वारा

18. कम्पनी का पहला लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है :

- (A) अंशधारियों द्वारा
- (B) केन्द्र सरकार द्वारा
- (C) कम्पनी लॉ बोर्ड द्वारा
- (D) निदेशक मण्डल द्वारा

19. कम्पनी लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक तय किया जाता है :

- (A) अंशधारियों द्वारा
- (B) निदेशक मण्डल द्वारा
- (C) केन्द्र सरकार द्वारा
- (D) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा

20. Internal auditor has to submit report to :
- (A) Shareholders  
(B) Government  
(C) Company law board  
(D) None of these
20. आन्तरिक लेखा परीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है :
- (A) अंशधारियों को  
(B) सरकार को  
(C) कम्पनी लॉ बोर्ड को  
(D) इनमे से कोई नहीं
21. Audit of Banks is an example of :
- (A) Statutory Audit  
(B) Balance sheet audit  
(C) Concurrent audit  
(D) All of the above
21. बैंको का अंकेक्षण एक उदाहरण है :
- (A) वैधानिक अंकेक्षण का  
(B) आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण का  
(C) समवर्ती अंकेक्षण का  
(D) उपरोक्त सभी
22. Auditor of a \_\_\_\_\_ does not have right to visit foreign branches of company .
- (A) Unlimited company  
(B) Manufacturing company  
(C) Banking company  
(D) Non-profit making company
22. \_\_\_\_\_ के लेखा परीक्षक को कम्पनी की विदेशी शाखाओं में जाने का अधिकार नहीं है।
- (A) असीमित कम्पनी  
(B) विनिर्माण कम्पनी  
(C) बैंकिंग कम्पनी  
(D) गैर-लाभकारी कम्पनी
23. Cost Audit under section 233 B of the company act is :
- (A) Voluntary  
(B) Compulsory  
(C) Advisable  
(D) Avoidable
23. कम्पनी अधिनियम की धारा 233 बी के तहत लागत अंकेक्षण है :
- (A) स्वैच्छिक  
(B) अनिवार्य  
(C) सलाह देना  
(D) परिहार्य

24. A company auditor can be removed by :

- (A) Board of Directors
- (B) Managing Director
- (C) Any Director
- (D) General Meeting

25. A company auditor should see that the dividend is paid :

- (A) After charging depreciation
- (B) Without charging depreciation
- (C) Out of capital
- (D) None of the above

26. Tenure of controller and auditor general of India shall be :

- (A) 6 Year
- (B) 65 Year of age
- (C) 6 Year or up to 65 Year of age whichever is earlier
- (D) 6 Year or up to 65 Year of age whichever is later

24. कम्पनी के अंकेक्षक को हटाया जा सकता है :

- (A) निदेशक मण्डल द्वारा
- (B) प्रबन्ध निदेशक द्वारा
- (C) कोई भी निदेशक द्वारा
- (D) आम बैठक द्वारा

25. कम्पनी के अंकेक्षण को यह देखना चाहिए कि लाभांश का भुगतान किया गया है :

- (A) मूल्यहास को चार्ज करने के बाद
- (B) मूल्यहास चार्ज किए बिना
- (C) पूँजी से बाहर
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

26. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होगा :

- (A) 6 वर्ष
- (B) 65 वर्ष की आयु
- (C) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो
- (D) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी बाद में हो

27. Cost audit represents true and fair view of the \_\_\_\_\_ of any product .
- (A) Cost of sale  
(B) Cost of raw material consumption  
(C) Cost of production  
(D) None of these
28. Cost audit \_\_\_\_\_ conducted by a chartered accountant .
- (A) May be  
(B) Can be  
(C) Can not be  
(D) May not be
29. Cost audit was initially introduced in the year \_\_\_\_\_ :
- (A) 1959  
(B) 1965  
(C) 1949  
(D) 1975
30. The cost audit report under CCRA-Rules, 2014 is to be submitted in :
- (A) Form - 3  
(B) Form - 4  
(C) Form - 1  
(D) Form - 2
27. लागत लेखा परीक्षा किसी भी \_\_\_\_\_ का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करती है।
- (A) बिक्री की लागत  
(B) घरेलू सामग्री खपत की लागत  
(C) उत्पादन की लागत  
(D) इनमें से कोई नहीं
28. लागत अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा \_\_\_\_\_ ।
- (A) हो सकता है  
(B) किया जा सकता है  
(C) नहीं किया जा सकता है  
(D) नहीं हो सकता है
29. लागत लेखा परीक्षा वर्ष \_\_\_\_\_ में शुरू की गई थी।
- (A) 1959  
(B) 1965  
(C) 1949  
(D) 1975
30. सी०सी०आर०ए०- नियम, 2014 के तहत लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है :
- (A) फार्म - 3 में  
(B) फार्म - 4 में  
(C) फार्म - 1 में  
(D) फार्म - 2 में

31. The cost auditor is to be appointed within \_\_\_\_\_ of the beginning of the financial year .
- (A) 90 days  
(B) 180 days  
(C) 6 months  
(D) 270 days
32. The cost auditor is \_\_\_\_\_ for forming and expressing an opinion on the cost statements.
- (A) Responsible  
(B) Reasonable  
(C) Irresponsible  
(D) Assessing
33. Liabilities for negligence is :
- (A) Criminal liabilities  
(B) Civil liabilities  
(C) Other liabilities  
(D) None of these
34. What is the primary objective of a bank audit ?
- (A) To detect fraud  
(B) To evaluate the bank financial performance  
(C) To express an opinion on the financial statements  
(D) To provide assurance on the bank internal controls
31. लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति वित्तीय वर्ष की शुरुआत के \_\_\_\_\_ के भीतर की जानी चाहिए ।
- (A) 90 दिन  
(B) 180 दिन  
(C) 6 महीने  
(D) 270 दिन
32. लागत लेखा परीक्षक लागत विवरणों पर एक राय बनाने और व्यक्त करने के लिए \_\_\_\_\_ है।
- (A) जिम्मेदार  
(B) उचित  
(C) गैर – जिम्मेदार  
(D) आकलनकर्ता
33. लापरवाही के लिए दायित्व है :
- (A) आपराधिक दायित्व  
(B) नागरिक दायित्व  
(C) अन्य दायित्व  
(D) इनमें से कोई नहीं
34. बैंक लेखा परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ?
- (A) धोखाधड़ी का पता लगाना  
(B) बैंक के वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना  
(C) वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना  
(D) बैंक के आन्तरिक नियंत्रण पर आश्वासन प्रदान करना

35. Which of the following is a type of tax audit ?
- (A) Desk Audit  
(B) Field Audit  
(C) Correspondence Audit  
(D) All of the above
36. What is the due date for furnishing tax audit reports under section 44 AB ?
- (A) 30<sup>th</sup> September  
(B) 31<sup>st</sup> October  
(C) 30<sup>th</sup> November  
(D) 31<sup>st</sup> December
37. Who is eligible to conduct a tax audit ?
- (A) Chartered Accountant (CA)  
(B) Cost Accountant (CMA)  
(C) Company Secretary (CS)  
(D) All of the above
38. What is the purpose of form 3 CA / 3 CB in tax audit ?
- (A) To report tax audit findings  
(B) To furnish tax audit reports  
(C) To provide audit details  
(D) To disclose tax payments
35. निम्नलिखित में से कौन सा कर लेखा परीक्षा का एक प्रकार है ?
- (A) डेस्क लेखा परीक्षा  
(B) फील्ड लेखा परीक्षा  
(C) पत्राचार लेखा परीक्षा  
(D) उपरोक्त सभी
36. धारा 44 ए बी के तहत कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की देय तिथि क्या है ?
- (A) 30 सितम्बर  
(B) 31 अक्टूबर  
(C) 30 नवम्बर  
(D) 31 दिसम्बर
37. कर लेखा परीक्षा करने के लिए कौन पात्र है ?
- (A) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (सी ए)  
(B) लागत लेखाकार (सी एम ए)  
(C) कम्पनी सचिव (सी एस )  
(D) उपरोक्त सभी
38. कर लेखा परीक्षा में फार्म 3 सी ए / 3 सी बी का उद्देश्य क्या है ?
- (A) कर लेखा परीक्षा निष्कर्षों की रिपोर्ट करना  
(B) कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना  
(C) लेखा परीक्षा विवरण प्रदान करना  
(D) कर भुगतान का खुलासा करना

39. Which of the following is a key component of a social audit ?
- (A) Financial statement analysis  
 (B) Stakeholder's engagement  
 (C) Environmental impact assessment  
 (D) All of the above
40. Who are the primary stakeholders involved in a social audit ?
- (A) Shareholders  
 (B) Employees  
 (C) Customers  
 (D) All of the above plus local communities and NGO's
41. Which of the following is a key area of focus in the audit of an insurance company ?
- (A) Underwriting risk  
 (B) Investment risk  
 (C) Operational risk  
 (D) All of the above
39. निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक लेखा परीक्षा का एक प्रमुख घटक है?
- (A) वित्तीय विवरण विश्लेषण  
 (B) हितधारकों की भागीदारी  
 (C) पर्यावरणीय प्रभाव आकलन  
 (D) उपरोक्त सभी
40. सामाजिक लेखा परीक्षा में शामिल प्राथमिक हितधारक कौन हैं ?
- (A) अंशधारी  
 (B) कर्मचारी  
 (C) ग्राहक  
 (D) उपरोक्त सभी प्लस स्थानीय समुदाय और गैर सरकारी संगठन
41. बीमा कम्पनी के लेखा परीक्षा में निम्नलिखित में से किस पर अधिक ध्यान दिया जाता है ?
- (A) अंडरराइटिंग जोखिम  
 (B) निवेश जोखिम  
 (C) परिचालन जोखिम  
 (D) उपरोक्त सभी

42. Which of the following is a type of audit that may be conducted in a government company ?
- (A) Financial Audit  
(B) Performance Audit  
(C) Compliance Audit  
(D) All of the above
43. Which of the following is a benefit of conducting an audit of a non-profit company ?
- (A) Improved financial management  
(B) Enhanced transparency and accountability  
(C) Better decision – making  
(D) All of the above
44. Which type of audit is conducted by a company's internal audit department ?
- (A) Internal Audit  
(B) External Audit  
(C) Financial Audit  
(D) Operational Audit
42. निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का लेखा परीक्षण है जो सरकारी कम्पनी में किया जा सकता है ?
- (A) वित्तीय लेखा परीक्षण  
(B) निष्पादन लेखा परीक्षण  
(C) अनुपालन लेखा परीक्षण  
(D) उपरोक्त सभी
43. निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी कम्पनी का लेखा परीक्षा करने का लाभ है ?
- (A) बेहतर वित्तीय प्रबन्धन  
(B) बढ़ी हुई पारदर्शिता और जवाबदेही  
(C) बेहतर निर्णय लेना  
(D) उपरोक्त सभी
44. कम्पनी के आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किस प्रकार का लेखा परीक्षा किया जाता है ?
- (A) आन्तरिक लेखा परीक्षा  
(B) वाह्य लेखा परीक्षा  
(C) वित्तीय लेखा परीक्षा  
(D) परिचालन लेखा परीक्षा

45. Appointment of company auditor in a government company is made :
- (A) By Directors  
(B) By Shareholders  
(C) By Central government  
(D) By CAG
46. Under which section a company auditor is appointed :
- (A) 139  
(B) 143  
(C) 145  
(D) 252
47. By whom the special audit of a company is get done :
- (A) Directors of the company  
(B) Shareholders  
(C) Central government  
(D) None of the above
48. Under which section of company's Act the remuneration of the auditor has been discussed :
- (A) 141  
(B) 142  
(C) 148  
(D) 145
45. सरकारी कम्पनी मे कम्पनी अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है :
- (A) निदेशकों द्वारा  
(B) अंशधारको द्वारा  
(C) केन्द्र सरकार द्वारा  
(D) कैग द्वारा
46. किस धारा के तहत एक कम्पनी अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है :
- (A) 139  
(B) 143  
(C) 145  
(D) 252
47. कम्पनी का विशेष अंकेक्षण किसके द्वारा करवाया जाता है :
- (A) कम्पनी के निदेशक  
(B) अंशधारक  
(C) केन्द्र सरकार  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
48. कम्पनी अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक पर चर्चा की गई है :
- (A) 141  
(B) 142  
(C) 148  
(D) 145

49. Under which section of the company's Act the special audit of a company is a done :

- (A) 206
- (B) 140
- (C) 145
- (D) 146

50. Who fixes the remuneration of the auditor in case of appointment by the shareholders ?

- (A) Board of directors
- (B) Shareholders
- (C) Managing directors
- (D) Government

49. कम्पनी अधिनियम की किस धारा के तहत किसी कम्पनी का विशेष अंकेक्षण किया जाता है ?

- (A) 206
- (B) 140
- (C) 145
- (D) 146

50. यदि अंकेक्षण की नियुक्ति शेयरधारकों द्वारा की जाती है, तो उसका पारिश्रमिक कौन तय करता है ?

- (A) निदेशक मण्डल
- (B) शेयर धारक
- (C) प्रबन्ध निदेशक
- (D) सरकार

\*\*\*\*\*